



## बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार विभाग उत्तर प्रदेश



शाला पूर्व शिक्षा बाल मूल्यांकन कार्ड

04-05 वर्ष आयु वर्ग

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| जनपद का नाम:                     | बच्चे की पंजीकरण के समय का पासपोर्ट साइज फोटो                        |  |
| परियोजना का नाम:                 |  |  |
| आंगनबाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड: |  |  |
| आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम:     |  |  |
| बच्चे का नाम:                    |  |  |
| बच्चे की जन्म तिथि:              | लिंग*: लड़की <input type="checkbox"/> लड़का <input type="checkbox"/> |  |
| आधार कार्ड संख्या:               | राशन कार्ड संख्या:   |  |
| माता का नाम:                     | पिता का नाम:   |  |
| बच्चे का पता:                    | बच्चे का केंद्र पर पंजीकरण की तिथि:                                  |  |

\*कृपया उचित स्थान पर चिन्ह (✓) दें

### अभिभावकों के लिए:

1. आंगनबाड़ी केंद्र में मूल्यांकन कोई परीक्षा नहीं है।
2. यह मूल्यांकन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा वर्ष में दो बार किया जाएगा।
3. यह मूल्यांकन आपके बच्चे के नियमित विकास के लिए ज़रूरतों को पहचानने में मदद करेगा।
4. इस मूल्यांकन से आपको यह जानकारी मिलेगी कि:-
  - आपके बच्चे अपने आयु के अनुसार विकास के किस स्तर पर हैं।
  - वह किन गतिविधियों को स्वयं करने सक्षम हैं।
  - उसे कहाँ पर और सहायता की ज़रूरत है।
5. इस मूल्यांकन के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा आपको यह अवगत कराया जाएगा कि आपके बच्चे के नियमित विकास के लिए आपके द्वारा घर पर किस प्रकार का सहयोग आवश्यक है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हस्ताक्षर  
(तिथि के साथ)

अभिभावक के हस्ताक्षर  
(तिथि के साथ)



| विकास के क्षेत्र            | मूल्यांकन का माह   | पहला मूल्यांकन |           |                  | दूसरा मूल्यांकन |           |                  |
|-----------------------------|--|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
|                             |  | स्वयं करते हैं | मदद चाहिए | नहीं कर पाते हैं | स्वयं करते हैं  | मदद चाहिए | नहीं कर पाते हैं |
| शारीरिक विकास               | बाहर या अंदर खेले जाने वाले खेल में सक्रिय प्रतिभागिता कर पाना   |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | बड़ी गेंद को फेंक, पकड़ और लात मार पाना  |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | तेज और धीमी गति से दौड़ पाना   |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | किसी दिए गए क्रम के अनुसार घागे में मोती डाल पाना  |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | बिंदुओं को मिलकर चित्र/आकृति बना पाना  |                |           |                  |                 |           |                  |
| बौद्धिक विकास               | गंध, स्वाद, ध्वनि और आकृतियों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण कर पाना                                    |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | वस्तुओं को किसी दो अवधारणाओं के आधार पर वर्गीकृत कर पाना – लाल फूल, पीले पत्ते इत्यादि                         |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | एक साधारण पैटर्न को पूरा कर पाना   |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | 4-5 टुकड़ों वाले पजल का चित्र पूरा कर पाना या पहेली हल कर पाना   |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | वस्तुओं की 5 तक गिनती कर पाना और लिखित संख्याओं के साथ मिलान कर पाना   |                |           |                  |                 |           |                  |
| भाषा विकास                  | वार्तालाप और कहानियों को ध्यान से सुन पाना   |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | सरल वाक्यों में अपने भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर पाना तथा प्रश्न पूछ पाना                                  |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | उचित शब्दावली का उपयोग करके बताये गए क्रम में कहानी या घटनाओं का वर्णन कर पाना                                 |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | पुस्तिका और अन्य छपी सामग्री को पहचानकर छपे शब्दों को दोहराने में रुचि रखना                                    |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | किसी दिए गए पहली शब्द के ध्वनि को पहचान पाना   |                |           |                  |                 |           |                  |
| सामाजिक एवं भावनात्मक विकास | अन्य बच्चों के साथ समूह में खेलने में खुशी महसूस करना  |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | परिचित व्यक्तियों से सहजता से बात कर पाना  |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | दोस्तों के साथ साझा कर पाना  |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | खेलते या अन्य स्थितियों में अपनी बारी के लिए इंतजार कर पाना  |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | खुशी, उदासी और क्रोध जैसे सरल भावनाओं को पहचान और व्यक्त कर पाना   |                |           |                  |                 |           |                  |
| रचनात्मक विकास              | नई चीजें सीखने में जिज्ञासा और रुचि दिखाना   |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | काल्पनिक खेल में शामिल होने का आनंद लेना   |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | दैनिक गतिविधियों में रचनात्मकता दिखाना – जैसे नए और अलग-अलग तरीकों से विभिन्न वस्तुओं या शब्दों का प्रयोग करना |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | नृत्य, नाटक और संगीत में प्रतिभागिता कर पाना   |                |           |                  |                 |           |                  |
|                             | चित्रकारी, चित्रकला और समस्याओं का समाधान करने में कल्पना का उपयोग कर पाना                                     |                |           |                  |                 |           |                  |

